




शिक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
EDUCATION



एथिकल हैकिंग और डिजिटल फोरेंसिक पर पांच दिवसीय बूटकैंप द्वारा आयोजित कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर 10 - 14 जून, 2024



बूटकैंप के बारे में

इस पाठ्यक्रम का मूलतः उद्देश्य प्रतिभागियों को साइबर सिक्योरिटी, मुख्यतः साइबर हमले की पहचान, उसके परिदृश्यों की विस्तृत जानकारी और परिणामों को कानूनी और नैतिक तरीके से सूचित करने के बारे में प्रशिक्षित करना है जो कि विशेष रूप से साइबर सुरक्षा भेद्यता, उपकरण शोषण और डिजिटल फोरेंसिक परिणामों से संबंधित रहेंगे। यह पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के चुनौतीपूर्ण, साहसिक और पुरस्कृत क्षेत्र में उन्नत और करियर बनाने में मदद करेगा। प्रस्तावित कार्यक्रम एक प्रशिक्षक के नेतृत्व वाला कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य संभावित फोरेंसिक कौशल विकसित करने के लिए केस अभ्यासक्रम पर प्रायोगिक अनुभव के साथ वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का ज्ञान प्रदान करना है। यह पाठ्यक्रम फोरेंसिक जांच, सुरक्षा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, फ़ाइल सिस्टम फोरेंसिक, स्केलपल, नमैप, डी.एन.एस फार्मिंग, हाइड्रा, मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क, डी.ओ.एस अटैक, हैशकैट इत्यादि की अवधारणाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जो एक उन्नत साइबर सुरक्षा पेशेवर बनने के लिए आवश्यक हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम साइबर सुरक्षा में तकनीकी करियर शुरू करने के इच्छुक छात्रों और पेशेवरों को तैयार करने के लिए तैयार किया गया है। यह एक तकनीकी कौशल कार्यक्रम है, जो साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में सक्रिय पेशेवर के रूप में करियर की शुरुआत करने के लिए आवश्यक है।

एनआईटी रायपुर के बारे में

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, राष्ट्रीय महत्व का एक स्वायत्त संस्थान है। यह संस्थान छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित है जो कि लगभग 100 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह संस्थान रायपुर रेलवे स्टेशन से 5 कि.मी. कि दूरी पर एन.एच.-6, ग्रेट ईस्टर्न रोड पर, और हवाई अड्डे से 14 कि.मी. दूरी पर है। एनआईटी रायपुर इस क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में "अवत-ग्रेड" साबित हुआ है। एनआईटी रायपुर को एन.आई.आर.एफ द्वारा भारत में इंजीनियरिंग श्रेणी में 70वां स्थान दिया गया है और यह छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च रैंक वाला इंजीनियरिंग कॉलेज है। वर्तमान में एन.आई.टी. रायपुर में 12 स्नातक, 14 स्नातकोत्तर (एप्लाइड जियोलॉजी में एम.एससी., एम.सी.ए. और एम.टेक सहित) और 18 पीएच.डी. अलग अलग विभाग में प्रदान करता है। संस्थान अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां भी करता है। उद्योग संस्थान इंटरैक्शन सेल के माध्यम से उद्योग को सतत शिक्षा और प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट विभाग के माध्यम से छात्र की नियुक्ति और प्रशिक्षण, परामर्श और अन्य विस्तार सेवाएं प्रदान करता है। छात्रों ने संस्थान का नाम भारत और विदेशों में सरकारी संगठनों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों में नाम रोशन किया है। एन.आई.टी रायपुर के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लॉगइन करें: <https://nitrr.ac.in/>

पाठ्यक्रम के परिणाम

- ✓ साइबर और इनफार्मेशन सिक्योरिटी की बुनियादी अवधारणाओं की समझ को विकसित करना
- ✓ साइबर हमलों की पहचान और उनपर जवाबी प्रतिक्रिया देने की योग्यता को विकसित करना
- ✓ वुल्नेराबिलिटी एनालिसिस एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग का इसके प्रतिउपायों सहित प्रदर्शन
- ✓ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और लिनक्स साक्ष्य के लिए फोरेंसिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन।
- ✓ विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त विभिन्न फ़ाइल सिस्टम का विश्लेषण करना
- ✓ डिजिटल फोरेंसिक अन्वेषक के रूप में प्रवेश स्तर की कौशल विकसित करना

भागीदारी के लिए पात्रता मापदंड

- ✓ साइबर सिक्योरिटी में उत्सुक यूजी/पीजी स्नातक/छात्र (अंतिम/पूर्व-अंतिम वर्ष) छात्र
- ✓ उच्च शिक्षण संस्थानों के पी.एच.डी छात्र
- ✓ तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों के संकाय/कर्मचारी/प्रयोगशाला प्रशिक्षक
- ✓ साइबर सिक्योरिटी में उत्सुक सरकारी कर्मचारी/उद्योग/कार्यरत पेशेवर
- ✓ अन्य साइबर सिक्योरिटी में उत्सुक

पंजीकरण विवरण

पंजीकरण लिंक:

<https://forms.gle/jpH9j9JTtw6eCmX818>

या

पंजीकरण आवेदन जमा करने के लिए क्यू.आर. स्कैन करें



पाठ्यक्रम विषय


- साइबर सिक्योरिटी की आधारभूत अवधारणा
- नेटवर्किंग की आधारभूत अवधारणा
- क्रिप्टोग्राफी और हैशिंग तकनीक
- वुल्नेराबिलिटी एनालिसिस, प्रक्रिया में प्रशिक्षण
- मलीसियस सॉफ्टवेयर की जानकारी
- डिजिटल फोरेंसिक: प्रक्रिया, उपकरण और तकनीक तथा उसकी अनुसंधान चुनौतियों की जानकारी
- हार्ड डिस्क और फ़ाइल सिस्टम (NTFS, FAT, Ext4, आदि) को समझना
- डेटा अधिग्रहण: इमेजिंग और क्लोनिंग
- टी.एस.के का उपयोग करके फ़ाइल सिस्टम विश्लेषण करना
- विंडोज फोरेंसिक
- एंटी-फोरेंसिक और एंटी-एंटी-फोरेंसिक
- वोलेटाइल मेमोरी फोरेंसिक
- मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) फोरेंसिक
- ईमेल और ड्रोन फोरेंसिक
- पासवर्ड पुनर्प्राप्ति सॉफ्टवेयर और तकनीकें
- मोबाइल फोरेंसिक
- ऐप फोरेंसिक
- ब्राउज़र फोरेंसिक

पाठ्यक्रम समयरेखा और पंजीकरण

पंजीकरण की अंतिम तिथि:	15 मई, 2024
शॉर्टलिस्ट किए गए प्रतिभागियों की सूची:	17 मई, 2024
शुल्क भुगतान:	17 से 22 मई, 2024
कोर्स आरंभ तिथि:	10 जून, 2024
कोर्स समाप्ति तिथि:	14 जून, 2024



शिक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
EDUCATION



एथिकल हैकिंग और डिजिटल फोरेंसिक पर पांच दिवसीय बूटकैम्प
द्वारा आयोजित
कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर
10 - 14 जून, 2024



मुख्य संरक्षक

प्रो. एन.वी. रमण राव, निदेशक, एनआईटी रायपुर

संरक्षक

डॉ. प्रभात दीवान, डीन (आर एंड सी), एनआईटी रायपुर

अध्यक्ष

डॉ. प्रदीप सिंह, विभागाध्यक्ष, सी.एस.ई विभाग

सलाहकार समिति

प्रो. नरेश कुमार नागवानी, सी.एस.ई विभाग

डॉ. दिलीप सिंह सिंसौदिया, सी.एस.ई विभाग

समन्वयक संपर्क विवरण

- डॉ. प्रदीप सिंह, सी.एस.ई विभाग, एन.आई.टी रायपुर
ईमेल: psingh.cs@nitrr.ac.in
- डॉ. नितेश के भारदवाज, सी.एस.ई विभाग, एन.आई.टी रायपुर
ईमेल: nkharadwaj.cse@nitrr.ac.in
मोबाइल नंबर: +91-9765379248
- डॉ. शैलेन्द्र त्रिपाठी, सी.एस.ई विभाग, एन.आई.टी रायपुर
ईमेल: sktripahi.cse@nitrr.ac.in
मोबाइल नंबर: +91-9993364581

वक्ता

साइबर सिक्यूरिटी और डिजिटल फोरेंसिक के विषय विशेषज्ञ: आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, एनएफएसयू, सीडैक, डीआरडीओ और इंडस्ट्री

प्रतिभागियों की संख्या

प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की संख्या सीमित है। पंजीकरण के आधार पर उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी

प्रमाणपत्र

बूटकैम्प के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

खाता विवरण

खाताधारक: National Institute of Technology, Raipur

खाता क्र. : 380278633250

बैंक का नाम: State Bank of India

बैंक शाखा : NIT Branch

आई.एफ.एस.सी कोड: SBIN0002852

शुल्क प्रकार

पंजीकरण प्रक्रिया

केवल ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा करें
<https://forms.gle/jpH9j9JT6cCmX818>

- आवश्यक बुनियादी विवरण भरें
- वैध आईडी प्रमाण (आधार/डाइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/पासपोर्ट/कर्मचारी आईडी कार्ड) अपलोड करें
- योग्यता डिग्री/पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- पासपोर्ट छायाचित्र अपलोड करें
- फॉर्म जमा करें।

नामांकन

- सत्यापन पुष्टिकरण के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 2 मई, 2024 को ईमेल और दिशानिर्देश भेजे जाएंगे
- शॉर्टलिस्ट किए गए प्रतिभागी 2 से 10 मई, 2024 के दौरान जीएसटी सहित पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करें
- प्रतिभागियों को भुगतान के बाद समन्वयकों को शुल्क रसीद ईमेल करना आवश्यक है

पंजीकरण पुष्टिकरण

क्रमांक	विवरण	एनआईटी रायपुर के छात्र	अन्य संस्थान से छात्र/छात्रा या एन.आई.टी रायपुर के कर्मचारी	उद्योग/पेशेवर/शैक्षणिक संस्थान से संकाय और स्टाफ़/सरकारी कर्मचारी
1	पाठ्यक्रम शुल्क	₹ 3000/- + 18% जीएसटी (₹ 3540/-)	₹ 4000/- + 18% जीएसटी (₹ 4720/-)	₹ 5000 + 18% जीएसटी (₹ 5900/-)
2	आवास शुल्क अतिरिक्त (छात्रावास में उपलब्धता के आधार पर)/(वैकल्पिक)	पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई टीए/डीए प्रदान नहीं किया जाएगा।		
3	भोजन शुल्क अतिरिक्त (वैकल्पिक)	NA	भुगतान के आधार पर (₹. 250/- प्रति दिन)	